



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3 Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 211]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 18, 1978/आषाढ़ 27, 1900

No. 11]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 18, 1978/ASADHA 27, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

निम्नलिखित भारतीय मानक विनिर्देश अभिप्रेत हैं:—

(गरी उद्योग विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1978

सं० का० वि० 274(अ),—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है; अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इस आदेश का नाम नरम इस्पात द्यूब (जोड़ रहित द्यूबों और ए०पी०आई० विनिर्देशों के अनुसार बनी द्यूबों को अपवर्जित करते हुए) (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 1978 है।

(2) यह 1 अगस्त, 1978 को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषा: इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) 'नरम इस्पात द्यूब' से जोड़ वेल्डिंग, जिसमें विद्युत प्रतिरोध नैलिबत भी सम्मिलित है, पच्चे और सफोटर तथा सादे और नरम इस्पात के द्यूब अभिप्रेत है;

(ख) 'विनिर्दिष्ट मानक' से समय-समय पर यथासंशोधित/पुनरीक्षित

क्रम सं०	भारतीय मानक सं०	नाम
1.	1239(भाग 1) 1973	नरम इस्पात द्यूब और नलिकाकार संरचनात्मक योजनों के लिए इस्पाती द्यूबें (द्वितीय पुनरीक्षण)
2.	1161-1968	अल कूपों के लिए प्रयोग में आने वाले इस्पात के द्यूब (200 मि०मी० व्यास तक)
3.	4270-1967	

3. कोई भी व्यक्ति स्वयं या अपने निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किन्हीं नरम इस्पात की द्यूबों को, जिनकी भिन्ती मोटाई इस आदेश के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानकों में हल्की श्रेणी के लिए निविष्ट भिन्ती मोटाई से कम है, न तो विनिर्मित करेगा या न बिक्री के लिए उन्हें भण्डार में रखेगा और न ही बेचेगा या वितरित करेगा और द्यूबों पर भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिन्ह होगा और जस्तीकृत द्यूबों पर जिक कोटिंग की मोटाई भा०मा० 4736-1968 के अनुसार होगी। परन्तु यह और कि इस आदेश की कोई भी बात ऐसे नरम इस्पात की द्यूबों के नियंत्रण के संबंध में लागू नहीं होगी जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप नहीं हैं किन्तु विदेशी श्रेता द्वारा अपेक्षित किन्हीं विनिर्देशों के अनुरूप हैं।

4. निरमात्राओं/व्यापारियों के पास बची हुई चट्टिया किम्म की भेष पाइयों और द्यूबों की मात्रा का, बाजार में बेचे जाने से पूर्व उनके

लम्बाई में काट कर, जो 1.5 मीटर से अधिक न हो, निपटान किया जा सकता है।

5. इस आदेश के द्वारा इस विषय पर दिनांक 21-6-77 के आदेश और उसके सभी शुद्धि पत्रों को रद्द किया जाता है।

हरी भूषण

सहायक (तकनीकी) एवं पब्लिक संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Heavy Industry)

## ORDER

New Delhi, the 18th July, 1978

**G.S.R. 374(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

1. Short title and commencement : (i) This Order may be called the Mild Steel Tubes (excluding seamless tubes and tubes according to API specifications) (Quality Control) Order 1978,

(ii) It shall come into force on 1st August, 1978.

2. Definition : In this order, unless the context otherwise requires—

(a) 'Mild Steel Tubes' mean seamwelded including electric resistance welded, screw and socketed and plain and mild steel tubes;

(b) 'Specified standards' mean the following Indian Standard specifications as amended/revised from time to time.

S. No.	I.S. No.	Title
1.	1239 (Part 1) 1973	Mild Steel Tubes and Tubulars
2.	1161-1968	Steel tubes for structural purposes (Second revision).
3.	4270-1967	Steel tubes used for water wells (upto 200 mm dia.).

3. No person shall by himself or by any person on his behalf manufacture or store for sale, sell or distribute any mild steel tubes having wall thickness less than the wall thickness stipulated for light class in the specified standards covered by this Order and that it would be with ISI Certification mark and provided that the thickness of zinc coating on the galvanised tubes shall be in accordance with IS : 4736-1968. Provided further that nothing in this Order shall apply in relation to export of mild steel tubes which do not conform to the specified standard but conform to any specification required by the foreign buyer.

4. The residual quantities of sub-standard quality left with manufacturers/traders can be disposed of by cutting pipes and tubes into length not in excess of 1.5 metre before being sold in the market.

5. This Order cancels the Order on this subject dated 21-6-77 and all Corrigenda thereof.

HARI BHUSHAN, Adviser (Tech)

& Ex-Officio Jt. Secy.